

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रधिकृत से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]
No. 17]

नई दिल्ली, बुधवार, , जनवरी 10, 2008/पौष 20, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 10, 2008/PAUSA 20, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महाविदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2008

सं. 100/(आर ई-2007)/2004-09

फा. सं. 01/94/188/183/ए एम 07/पीसी-1.— विदेश व्यापार नीति, 2004-09 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए महाविदेशालय, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (आरई 2006 और आरई 2007) में, एम्बेडिंग, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

क. फोकस उत्पाद स्कीम के लिए पैरा 3.21.1 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

"2006-07 के दौरान किए गए निर्यातों और 2007-08 के दौरान किए गए निर्यातों के लिए आवेदन अलग से एएनएफ 3ई में निर्धारित दस्तावेजों के साथ सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। एक आवेदन में 50 से अधिक शिपिंग बिल नहीं होंगे। एक वर्ष में 50 शिपिंग बिलों से अधिक के साथ निर्यातक, एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और अतिरिक्त कटौती (प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 का पैरा 9.4) लागू नहीं होगी।

ईडीआई पत्तनों और गैर ईडीआई पत्तनों से पंजीकरण एक आवेदन में नहीं जोड़े जा सकते। ईडीआई सक्षम पत्तनों के लिए पंजीकरण पत्तन आवेदक की इच्छा के अनुसार निर्यातों का कोई भी एक ईडीआई पत्तन हो सकता है।

गैर ईडीआई पत्तन के जरिए निर्यातों के मामले में, पंजीकरण पत्तन निर्यातों का संगत गैर ईडीआई पत्तन होगा। तदनुसार, प्रत्येक गैर ईडीआई पत्तन के लिए अलग आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख वसूली की तारीख से 6 महीने होगी अथवा अग्रिम भुगतान के मामले में निर्यात की तारीख होगी। निर्यात की तारीख प्रक्रिया पुस्तक खण्ड -1 के पैरा 9.12 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। तथापि, अब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत आवेदन के लिए 1-4-2007 से 31-1-2008 तक के निर्यातों के लिए अंतिम तारीख 30-7-2008 होगी।

उपर्युक्त परिवर्तन 2006-07 के दौरान किए गए निर्यातों के लिए एफपीएस आवेदनों पर लागू होंगे, जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई, 2008 तक बढ़ा दी गई है। उपर्युक्त पहले ही प्राप्त आवेदनों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें इस संशोधन से पहले प्रक्रिया के अनुसार अंतिम रूप दिया जा सकता है।"

ख. उच्च तकनीक उत्पाद निर्यात संवर्धन स्कीम के लिए पैरा 3.22.2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:

"यदि आवेदक पैरा 3.11.2 (क) में दिए गए विकल्प का प्रयोग करना चाहता है, तो फोकस उत्पाद स्कीम के लाभों का दावा करने के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी। अन्य के लिए, लाइसेंसिंग वर्ष 2007-08 के दौरान निर्यातों में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्राप्त करने हेतु आवेदन मौजूदा लाइसेंसिंग वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों की अवधि के भीतर आयात निर्यात फार्म 3 ड. में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आयात निर्यात फार्म 3 ड. में भरे गए आवेदन, ईडीआई पत्तनों तथा गैर ईडीआई पत्तनों से किए गए पोत लदानों को एक आवेदन में समेकित किया जा सकता है और पंजीकरण का पत्तन आवेदक की पसंद के अनुसार निर्यात के पत्तनों में से कोई भी एक हो सकता है।"

ग. फोकस उत्पाद स्कीम के लिए संशोधित आयात निर्यात फार्म 3ई इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 1 के अनुसार संलग्नित है।

घ. फोकस मार्केट स्कीम के लिए पैरा 3.20.1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"आयात निर्यात फार्स 3घ में उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को 2006-07 के दौरान किए गए निर्यातों और 2007-08 के दौरान किए गए निर्यातों के लिए अलग-अलग आवेदन किया जाएगा। एक आवेदन में 50 पोत लदान बिलों से अधिक नहीं होने चाहिए। एक वर्ष में 50 पोत लदान बिलों से अधिक वाले निर्यातकों के लिए, कई आवेदन किए जा सकते हैं और अतिरिक्त कटौती (प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 का पैरा 9.4) लागू नहीं होगी।

ईडीआई पत्तनों तथा गैर ईडीआई पत्तनों से पोत लदान एक आवेदन में समेकित नहीं हो सकते। ईडीआई समर्थित पत्तनों के लिए पंजीकरण का पत्तन, आवेदक की पसंद के अनुसार निर्यातों के लिए कोई भी एक ईडीआई पत्तन हो सकता है।

गैर-ईडीआई पत्तन से निर्यातों के मामले में, पंजीकरण का पत्तन निर्यातों का संबद्ध गैर ईडीआई पत्तन होगा। तदनुसार प्रत्येक गैर ईडीआई पत्तन के लिए अलग से आवेदन भरे जाएंगे।

अग्रिम भुगतान के मामले में आवेदन करने की अंतिम तारीख प्राप्ति की तारीख अथवा निर्यात की तारीख से 6 माह के भीतर होगी। निर्यात की तारीख, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 9.12 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। तथापि, अभी विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भरे आवेदनों के लिए, 1-4-2007 से 31-1-2008 तक के निर्यातों हेतु अंतिम तारीख 30-7-2008 होगी।

उपरोक्त परिवर्तन 2006-07 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एक एफएमएस आवेदनों पर लागू रहेंगे, जिनके लिए प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई, 2008 तक बढ़ा दी गई है। उपरोक्त पहले से ही प्राप्त आवेदनों पर लागू नहीं रहेगी, जिसे इस संशोधन से पहले प्रक्रियानुसार अंतिम रूप दिया जा सकता है।"

ड. पैरा 3.20.3 में, निम्नलिखित को अंत में जोड़ा जाता है:-

इनमें से किस भी दस्तावेज को विनिर्दिष्ट फोकस मार्केट में निर्यात खेप के आगमन के प्रमाण के रूप में पर्याप्त होना चाहिए।

- i. विनिर्दिष्ट मार्केट में निर्यातक द्वारा प्रविष्टि के निर्यात बिल की स्वयं द्वारा प्रमाणित कॉपी, या

- ii. पत्तन अधिकारियों द्वारा जारी सुपुर्दगी आदेश, या
 - iii. मालवाहक द्वारा जारी आगमन सूचना, या
 - iv. मालवाहक द्वारा उनके द्वारा जारी ट्रैकिंग रिपोर्ट, निर्यात कार्गो का लक्षित फोकस मार्केट में आगमन प्रमाणित करते हुए, या
 - v. पत्तन से फोकस मार्केट में वस्तुओं के परिवहन की लॉरी रसीदे, या
 - vi. भू-बद्ध फोकस मार्केट के लिए, पत्तन से भू-बद्ध फोकस मार्केट के लिए वस्तुओं के परिवहन के लिए लॉरी रसीदे, या
 - vii. दूसरा अन्य दस्तावेज जो संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को संतोषजनक रूप से सिद्ध कर सके कि वस्तुएं फोकस मार्केट में उतर/पहुंच गई हैं।
- च. फोकस मार्केट स्कीम के लिए संशोधित एएनएफ 3घ इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 2 के साथ जोड़ा गया है।
- छ. पैरा 3.19.3, 3.20.2 और 3.21.2 कृपया जाता है।

ज.	उच्च तकनीक के उत्पाद (विदेश व्यापार नीति का पैरा 3.11), परिशिष्ट-37ड. में यथाअधिसूचित ।	1-4-2007
----	--	----------

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

अनुलग्नक 1

आयात निर्यात प्रपत्र 3 ड
फोकस मार्केट स्कीम (एफ एम एस) आवेदन हेतु
(एफ टी पी आर ई 2006 और एफ टी पी 2007 हेतु)

1.	आई ई सी संख्या
----	----------------

2.	आवेदक का विवरण
	1. नाम
	2. पता

3.	आर सी एम सी विवरण
	1. आर सी एम सी संख्या
	2. जारी करने की तारीख
	3. जारी कर्ता प्राधिकारी
	4. जब तक वैध है
	5. उत्पाद, जिसके लिए पंजीकरण किया गया

4. **सहस्रसिंग वर्ष (2006-07/2007-08) के दौरान किए गए निर्यातों का विवरण (निर्यात की तारीख के अनुसार संबद्ध वर्ष लिखें)***
 (कृपया ध्यान रखें कि 2006-07 और 2007-08 के दौरान किए गए निर्यात एक आवेदन में नहीं दिए जा सकते)

क्रम सं०	शिपिंग बिल सं०	शिपिंग बिल की तारीख	निर्यात की तारीख *	निर्यात का पत्तन ***	आई टी सी(एच एस) कोड	मद विवरण	फोकस मार्केट कोड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

बी आर सी/एफ आई आर सी सं०	बी आर सी/एफ आई आर सी के अनुसार प्राप्ति की तारीख (या अग्रिम बुगतान के मामले में निर्यात की तारीख) **	बी आर सी/एफ आई आर सी में उल्लिखित अनुसार पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य	हकदारी की दर	हकदारी (रु० में)	लागू विलम्बित कटौती (यदि कोई हो) (रु० में)	फोकस मार्केट हकदारी (रु० में)
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			1.25%	(13) = (11) * (12)		(15) = (13) - (14)

5. अपेक्षित अलग-अलग प्रमाणपत्रों की संख्या (प्रत्येक 5 लाख रुपयों के गुणकों में) (गैर-ई डी आई पतनों से निर्यातों के लिए जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के लिए अलग-अलग प्रमाण-पत्रों की अनुमति नहीं होगी।

6. पंजीकरण का पत्तन (आयात प्रयोजन हेतु) ***

टिप्पणी - चूंकि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं अतः पूरक कटौती नहीं लगाई जाएगी

(* निर्यात की तारीख प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 9.12 के अनुसार निर्यात की तारीख होगी। स्कीम के तहत आंशिक प्राप्ति के मामले में भी ए एन एफ 3 ड. के क्रम सं० 4 के तहत शामिल एस/बी के प्रति अन्य कोई दावे अनुमत नहीं होंगे।

(** शिपमेंट के प्रति प्राप्ति की गुणक तारीखों के मामले में, इस कॉलम में प्राप्ति की आखिरी तारीख का उल्लेख करना होगा।)

(*** पंजीकरण का पत्तन वह होगा जहाँ से निर्यात किया गया हो। गैर ई डी आई पत्तन से निर्यातों के मामले में, पंजीकरण का पत्तन निर्यात का पत्तन होगा।)

8. आवेदन प्रस्तुत करने के विवरण (इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत आवेदनों के मामले में)	9. आवेदन शुल्क विवरण
<ol style="list-style-type: none"> 1. ई सी ओ एम सन्दर्भ संख्या 2. सर्वर पर प्रस्तुत करने की तारीख 3. किस क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया 4. फाइल संख्या 5. जारी करने की तारीख 	<ol style="list-style-type: none"> 1. राशि (रु०) 2. डिमान्ड ड्रॉफ्ट / बैंक रसीद/इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रान्स्फर सं० 3. जारी करने की तारीख 4. बैंक का नाम जिस से प्राप्त हुआ 5. बैंक की शाखा जिससे प्राप्त हुआ।

घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिये गये ब्यौरे और विवरण सत्य और ठीक है तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है। मैं पूर्णतया समझता हूँ कि आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मेरी फर्म/कम्पनी और मुझे कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।
2. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि कोई भी स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/ निदेशक (निदेशकों) कर्ता/फर्म का न्यासी/कंपनी, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य फर्म/कंपनी में स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/निदेशक (निदेशकों) कर्ता/न्यासी नहीं है जो कि विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में प्रतिकूल है। परिणामस्वरूप, मैं आगे यह भी घोषणा करता हूँ कि विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत मेरी फर्म/कंपनी को, निलंबन अथवा आईईसी संख्या के रद्द करने को निरस्त करके किसी निर्यात आयात व्यवसाय अथवा कार्यकलाप को करने से व्यक्तिगत तौर पर विवर्जित नहीं किया गया है। [यदि एफ टी (डी एण्ड आर) अधिनियम के तहत विवर्जित किया गया है तो उक्त आदेश का ब्यौरा और अवधि जब तक के लिए ऐसा किया गया है, देना होगा]
3. मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी फर्म/कंपनी ने विदेश व्यापार नीति के किसी प्रावधान के तहत निर्यात दायित्व में किसी तरह की कोई चूक नहीं की है और चूककर्ता सूची (डीईएल) में नहीं रखा गया है [यदि डीईएल सूची के तहत हैं तो कृपया आदेश, मौजूदा स्थिति आदि का ब्यौरा प्रस्तुत करें।]
4. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म/कंपनी के माल में निर्यात का ब्यौरा सत्य और सही है और मेरी फर्म/कंपनी द्वारा रखे गए बही-खातों के अनुरूप है।
5. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में शामिल शिपिंग बिलों के मध्ये फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस) हाई-टेक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम (एचटीपीईपीएस), जैसा भी मामला हो, के तहत कोई लाभ प्राप्त (या आवेदन किया गया) नहीं किया गया था।
6. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.12.6 के अनुसार, इस आवेदन में कोई ऐसा निर्यात नहीं है जिसमें विदेश व्यापार नीति के अध्याय- 3 के तहत किसी अन्य प्रोत्साहन योजना का लाभ लिया गया है/लिया जाएगा।
7. मैं आगे घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन के अधीन जिस पोत लदान के लिए लाभ प्राप्त किया गया है उसमें केवल वे निर्यात पोत लदान शामिल है जिनका निर्यात ईडीआई समर्थित पत्तों के जरिए किया गया है और इसमें गैर ईडीआई पत्तों से कोई पोत लदान शामिल नहीं है।

या

मैं आगे यह घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन के अधीन जिस पोत लदान के लिए लाभ प्राप्त किया गया है उसमें केवल वे निर्यात पोतलदान शामिल हैं जिनका निर्यात एक एकल गैर - ईडीआई समर्थित पत्तनों के जरिये किया गया है और इसमें ईडीआई पत्तनों या अन्य गैर ईडीआई पत्तनों से कोई पोतलदान शामिल नहीं है। (जो संबंधित नहीं है उसे काट दें, ईडीआई पत्तनों से पोत लदान और प्रत्येक गैर-ईडीआई पत्तनों से पोत लदानों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।)

7क. मैं आगे घोषणा करता हूँ कि आवेदन में डीटीए से एसईजैड को निर्यात शामिल है और शिपिंग बिल के बदले निर्यात का बिल जमा किया गया है (जो संबंधित न हो उसे काट दें।)

8. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.12.8 के अनुसार, इस आवेदन में इस प्रावधान के प्रतिकूल, कोई निर्यात नहीं किया गया है।

9. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यात उत्पाद जिसके लिए एफ पी एस/एचटीपीईपीएस लाभ का दावा किया गया है, ऐसी ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी ईकाइयों द्वारा 1.4.2007 से किया गया कोई पोत लदान शामिल नहीं है, जिस पर प्रत्यक्ष कर छूट नहीं ली गई है/ली जाएगी और आगे यह कि यह निर्यात निम्न क्रम सं० 10 में नहीं आते हैं।

10. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यात जिनके लिए एफपीएस/एचटीपीईपीएस के अधीन लाभ का दावा किया गया है उसमें एफ पी एस हेतु विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.10.2.2/एचटीपीईपीएस हेतु विदेश व्यापार नीति का पैरा 3.11.4, जैसा भी मामला हो, के तहत कोई निर्यात और/या श्रेणी शामिल नहीं है।

11. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यात जिनके लिए एफ एम एस के अधीन लाभ का दावा किया गया है उसमें आई टी सी एचएस में शामिल मदवार नीति के प्रतिबंधित या निषिद्ध होने के बाद निर्यात किया गया कोई पोत लदान शामिल नहीं है।

12. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि

क) चालू लाइसेंसिंग वर्ष 2007-2008 के दौरान किए गए निर्यात हेतु एचटीपी ईपीएस के तहत कुल लाभ 15 करोड़ रुपए की सीमा से अधिक नहीं हुए हैं। (एचटीपीईपीएस के तहत सभी पोत लदानों हेतु फाइल संख्यावार दायर दावों की सूची प्रस्तुत है जिसमें एचटीपीईपीएस के तहत वर्ष 2007-2008 के दौरान निर्यातों के लिए किए गए कुल दावों को दर्शाया गया है।)

ख) मेरा पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष (अर्थात् 2006-07) में निर्यात शून्य नहीं है।

ग) मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.11.2(क) की शर्तों के अनुसार 1.25% की दर से लाभ के दावे का विकल्प चुनता हूँ।

13. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.9 के अनुसार मैं इस घोषणापत्र को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

स्थान :-----	हस्ताक्षर :-----
दिनांक :-----	नाम :-----
जमा किए जाने वाले दस्तावेज़	पदनाम :-----
1. पोत लदान बिल की निर्यात संवर्धन (ईपी) प्रति/निर्यात का बिल। (स्थल सीमा शुल्क के माध्यम से निर्यात के मामले सहित)	कार्यालय का पता :-----
2. निर्यातों और प्राप्ति से संबद्ध मूल बैंक प्रमाण पत्र - परिशिष्ट 22क/फारेन इन्वर्ड रेमिटेन्स सर्टिफिकेट्स (एफआईआरसी) अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से निर्यात प्राप्तियों के ऑफ सैटिंग (परिशिष्ट 22घ)	घर का पता :-----
टिप्पणी : एफआईआरसी के मामले में निर्यातक से यह घोषणा कि पोत लदान बिल (बिलों) की संख्या दिनांक के संबंध में प्रेषण भी प्रस्तुत करना होगा।	दूरभाष :-----
टिप्पणी 1. : आवेदन का प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित होना चाहिए। ऑन लाइन आवेदन का एक प्रिंट आउट जिस पर दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर हों। वैद्य आर सी एम सी की प्रति सहित, यदि कोई परिवर्तन/अद्यतन किया गया हो ऐसे मामले में आयात निर्यात फार्म 1 में अद्यतन प्रोफाइल की प्रति।	ई मेल का पता :-----
टिप्पणी 2. ऐसे मामलों में जहाँ विदेश व्यापार नीति की अन्य स्कीम के तहत पोत लदान बिलों की मूल ईपी प्रति/निर्यात के बिल और/अथवा बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र जमा किए गए हों, उसकी ईपी प्रति की एक स्व प्रमाणित प्रति संलग्न हो जिसमें संदर्भ फाइल संख्या और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी जहाँ मूल दस्तावेज़ जमा किए गए हैं दर्शाया गया हो।	

अनुलग्नक 2

आयात निर्यात प्रपत्र 3 घ
 'फोकस मार्केट स्कीम (एफ एम एस) आवेदन हेतु
 (एफ टी पी आर ई 2006 और एफ टी पी 2007 हेतु)

1.	आई ई सी संख्या
----	----------------

2.	आवेदक का विवरण
	1. नाम
	2. पता

3.	आर सी एम सी विवरण
	1. आर सी एम सी संख्या
	2. जारी करने की तारीख
	3. जारी कर्ता प्राधिकारी
	4. जब तक वैध है
	5. उत्पाद, जिसके लिए पंजीकरण किया गया

4. लाइसेंसिंग वर्ष (2006-07/2007-08) के दौरान किए गए निर्यातों का विवरण

(निर्यात की तारीख के अनुसार संबद्ध वर्ष लिखें)*

(कृपया ध्यान रखें कि 2006-07 और 2007-08 के दौरान किए गए निर्यात एक आवेदन में नहीं दिए जा सकते)

क्रम सं०	शिपिंग बिल सं०	शिपिंग बिल की तारीख	निर्यात की तारीख *	निर्यात का पत्तन ***	आई टी सी(एच एस) कोड	मद विवरण	फोकस मार्केट कोड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

बी आर सी/एफ आई आर सी सं०	बी आर सी/एफ आई आर सी के अनुसार प्राप्ति की तारीख (या अग्रिम भुगतान के मामले में निर्यात की तारीख) **	बी आर सी/एफ आई आर सी में उल्लिखित अनुसार पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य	हकदारी की दर	हकदारी (रु० में)	लागू विलम्बित कटौती (यदि कोई हो) (रु० में)	फोकस मार्केट हकदारी (रु० में)
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			2.5%	(13) = (11) * (12)		(15) = (13) - (14)

5. अपेक्षित अलग-अलग प्रमाणपत्रों की संख्या (प्रत्येक 5 लाख रुपयों के गुणकों में) (गैर-ई डी आई पत्तनों से निर्यातों के लिए जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के लिए अलग-अलग प्रमाण-पत्रों की अनुमति नहीं होगी।

6. पंजीकरण का पत्तन (आयात प्रयोजन हेतु) ***

टिप्पणी - चूंकि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं अतः पूरक कटौती नहीं लगाई जाएगी

(* निर्यात की तारीख प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 9.12 के अनुसार निर्यात की तारीख होगी। स्कीम के तहत आंशिक प्राप्ति के मामले में भी ए एन एफ 3 घ के क्रम सं० 4 के तहत शामिल एस/बी के प्रति अन्य कोई दावे अनुमत नहीं होंगे।

(** शिपमेंट के प्रति प्राप्ति की गुणक तारीखों के मामले में, इस कॉलम में प्राप्ति की आखिरी तारीख का उल्लेख करना होगा।

(*** ई डी आई पत्तनों में से पंजीकरण का पत्तन वह होगा जहाँ से निर्यात किया गया हो। गैर ई डी आई पत्तन से निर्यातों के मामले में, पंजीकरण का पत्तन निर्यात का पत्तन होगा।)

8. आवेदन प्रस्तुत करने के विवरण (इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत आवेदनों के मामले में)	9. आवेदन शुल्क विवरण
<ol style="list-style-type: none"> 1. ई सी ओ एम सन्दर्भ संख्या 2. सर्वर प्रस्तुत करने की तारीख 3. किस क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया 4. फाइल संख्या 5. जारी करने की तारीख 	<ol style="list-style-type: none"> 1. राशि (रु०) 2. डिमान्ड ड्रॉफ्ट / बैंक रसीद/इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रान्सफर सं० 3. जारी करने की तारीख 4. बैंक का नाम जिस से प्राप्त हुआ 5. बैंक की शाखा जिससे प्राप्त हुआ।

घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिये गये ब्यौरे और विवरण सत्य और ठीक है तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है। मैं पूर्णतया समझता हूँ कि आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मेरी फर्म/कम्पनी और मुझे कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।
2. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि कोई भी स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/ निदेशक (निदेशकों) कर्ता/फर्म का न्यासी/कंपनी, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य फर्म/कंपनी में स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/निदेशक (निदेशकों) कर्ता/न्यासी नहीं है जो कि विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में प्रतिकूल है। परिणामस्वरूप, मैं आगे यह भी घोषणा करता हूँ कि विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत मेरी फर्म/कंपनी को, निलंबन अथवा आईईसी संख्या के रद्द करने को निरस्त करके किसी निर्यात आयात व्यवसाय अथवा कार्यकलाप को करने से व्यक्तिगत तौर पर विवर्जित नहीं किया गया है। [यदि एफ टी (डी एण्ड आर) अधिनियम के तहत विवर्जित किया गया है तो उक्त आदेश का ब्यौरा और अवधि जब तक के लिए ऐसा किया गया है, देना होगा]
3. मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी फर्म/कंपनी ने विदेश व्यापार नीति के किसी प्रावधान के तहत निर्यात दायित्व में किसी तरह की कोई चूक नहीं की है और चूककर्ता सूची (डीईएल) में नहीं रखा गया है [यदि डीईएल सूची के तहत हैं तो कृपया आदेश, मौजूदा स्थिति आदि का ब्यौरा प्रस्तुत करें।]
4. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म/कंपनी के माल में निर्यात का ब्यौरा सत्य और सही है और मेरी फर्म/कंपनी द्वारा रखे गए बही-खातों के अनुरूप है।
5. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में शामिल शिपिंग बिलों के मदे फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस) के तहत कोई लाभ प्राप्त (या आवेदन किया गया) नहीं किया गया था।
6. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.12.6 के अनुसार, इस आवेदन में कोई ऐसा निर्यात नहीं है जिसमें विदेश व्यापार नीति के अध्याय- 3 के तहत किसी अन्य प्रोत्साहन योजना का लाभ लिया गया है/लिया जाएगा।
7. मैं आगे घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन के अधीन जिस पोत लदान के लिए लाभ प्राप्त किया गया है उसमें केवल वे निर्यात पोत लदान शामिल हैं जिनका निर्यात ईडीआई समर्थित पत्तनों के जरिए किया गया है और इसमें गैर ईडीआई पत्तनों से कोई पोत लदान शामिल नहीं है।

या

मैं आगे यह घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन के अधीन जिस पोत लदान के लिए लाभ प्राप्त किया गया है उसमें केवल वे निर्यात शामिल हैं जिनका निर्यात पोतलदान एक एकल गैर - ईडीआई समर्थित पत्तनों के जरिये किया गया है और इसमें ईडीआई पत्तनों या अन्य गैर ईडीआई पत्तनों से कोई पोतलदान शामिल नहीं है। (जो संबंधित नहीं है उसे काट दें, ईडीआई पत्तनों से पोत लदान और प्रत्येक गैर-ईडीआई पत्तनों से पोत लदानों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

8. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.12.8 के अनुसार इस आवेदन में इस प्रावधान के प्रतिकूल, कोई निर्यात नहीं किया गया है।

9. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यात उत्पाद जिसके लिए एफ एम एस लाभ का दावा किया गया है, ऐसी ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी ईकाइयों द्वारा 1.4.2007 से किया गया कोई पोत लदान शामिल नहीं है, जिस पर प्रत्यक्ष कर छूट नहीं ली गई है/ली जाएगी और आगे यह कि यह निर्यात निम्न क्रम सं० 10 में नहीं आते हैं।

10. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यात जिनके लिए एफएमएस के अधीन लाभ का दावा किया गया है उसमें एफ एम एस हेतु विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.9.2.2 के तहत कोई निर्यात और/या श्रेणी शामिल नहीं है।

11. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यात जिनके लिए एफ एम एस के अधीन लाभ का दावा किया गया है उसमें आई टी सी एचएस में शामिल मदवार नीति के प्रतिबंधित या निषिद्ध होने के बाद निर्यात किया गया कोई पोत लदान शामिल नहीं है।

12. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.9 के अनुसार मैं इस घोषणापत्र को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

स्थान :-----	हस्ताक्षर :-----
दिनांक :-----	नाम :-----
जमा किए जाने वाले दस्तावेज़	पदनाम :-----
1. पोत लदान बिल की निर्यात संवर्धन (ईपी) प्रति/निर्यात का बिल। (स्थल सीमा शुल्क के माध्यम से निर्यात के मामले सहित)	कार्यालय का पता :----- -----

2. निर्यातों और प्राप्ति से संबद्ध मूल बैंक प्रमाण पत्र - परिशिष्ट 22क/फारेन इन्चर्ड रेमिटेन्स सर्टिफिकेट्स (एफआईआरसी) अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से निर्यात प्राप्तियों के ऑफ सैटिंग (परिशिष्ट 22घ)	घर का पता :----- -----
3. निर्दिष्ट फोकस मार्केट में निर्यात खेप के उतरने के प्रमाण के रूप में पैरा 3.20.3 में निर्धारित कोई दस्तावेज संलग्न होना चाहिए ।	
4. एफआईआरसी के मामले में निर्यातक से यह घोषणा कि पोत लदान बिल (बिलों) की संख्या दिनांक के संबंध में प्रेषण भी प्रस्तुत करना होगा ।	दूरभाष :
टिप्पणी : 1. आवेदन का प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित होना चाहिए । ऑन लाइन आवेदन का एक प्रिंट आउट जिस पर दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर हों । वैध आर सी एम सी की प्रति सहित, यदि कोई परिवर्तन/अद्यतन किया गया हो ऐसे मामले में आयात निर्यात फार्म 1 में अद्यतन प्रोफाइल की प्रति ।	ई मेल का पता :
2. ऐसे मामलों में जहाँ विदेश व्यापार नीति की अन्य स्कीम के तहत पोत लदान बिलों की मूल ईपी प्रती/निर्यात के बिल और/अथवा बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र जमा किए गए हों, उसकी ईपी प्रती की एक स्व प्रमाणित प्रति संलग्न हो जिसमें संदर्भ फाईल संख्या और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी जहाँ मूल दस्तावेज़ जमा किए गए हैं दर्शाया गया हो ।	

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th January, 2008

No. 100 (RE-2007)/2004—09

F. No. 01/94/180/183/AM07/PC-I.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy 2004—09, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures, Vol. I (RE 2006 & RE 2007):

A. Para 3.21.1 for Focus Product Scheme is replaced as under:

"An application for exports made during 2006-07 and exports made during 2007-08 shall be filed separately, with RA concerned in ANF 3E along with documents prescribed therein. An application shall contain no more than 50 shipping bills. For exporter with more than 50 shipping bills in one year, multiple applications can be filed and supplementary cut (Para 9.4 of HBP v1) shall not be applicable.

Shipments from EDI Ports and Non-EDI Ports cannot be clubbed in one application. Port of registration for EDI enabled ports shall be any one EDI port of exports, as per the choice of the applicant.

In case of exports through non-EDI port, the port of registration shall be the relevant non EDI port of exports. Accordingly separate application shall be filed for each non EDI port.

Last date for filing application shall be 6 months from the date of realization or date of export in case of advance payment. Date of export shall be determined as per Para 9.12 of HBP v1. However for application filed as per procedure prescribed now, last date shall 30.7.2008, for exports from 1.4.2007 till 31.1.2008.

The above changes shall apply to FPS applications for exports made during 2006-07, for which the last date of filing is extended till 30.7.2008. The above shall not apply to applications already received, which can be finalised as per the procedure before this amendment."

B. Para 3.22.2 for High-Tech Products Export Promotion Scheme is replaced as under:

"In case the applicant wishes to avail the option given in Para 3.11.2 (a), the Procedure prescribed for claiming Focus Product Scheme benefits shall apply. For others, application for obtaining Duty Credit scrip for incremental growth in exports during current licensing year 2007-08 shall be filed in ANF 3F within a period of twelve months after expiry of current licensing year. Application filed in ANF 3F, shipments from EDI Ports and Non-EDI Ports can be clubbed in one application and the port of registration shall be any one of the ports of exports, as per the choice of the applicant."

C. Revised ANF 3E for Focus Product Scheme is annexed as Annexure 1 to this Public Notice.

D. Para 3.20.1 for Focus Market Scheme is replaced as under:

"An application for exports made during 2006-07 and exports made during 2007-08 shall be filed separately, with RA concerned in ANF 3D along with documents prescribed therein. An application shall contain no more than 50 shipping bills. For exporter with more than 50 shipping bills in one year, multiple applications can be filed and supplementary cut (Para 9.4 of HBP v1) shall not be applicable.

Shipments from EDI Ports and Non-EDI Ports cannot be clubbed in one application. Port of registration for EDI enabled ports shall be any one EDI port of exports, as per the choice of the applicant.

In case of exports through non-EDI port, the port of registration shall be the relevant non EDI port of exports. Accordingly separate application shall be filed for each non EDI port.

Last date for filing application shall be 6 months from the date of realization or date of export in case of advance payment. Date of export shall be determined as per Para 9.12 of HBP v1. However for application filed as per procedure prescribed now, last date shall be 30.7.2008, for exports from 1.4.2007 till 31.1.2008.

The above changes shall apply to FMS applications for exports made during 2006-07, for which the last date of filing is extended till 30th July 2008. The above shall not apply to applications already received, which can be finalised as per the procedure before this amendment."

E. In Para 3.20.3, the following is added at the end.

Any one of the following documents should suffice, as a proof of landing of export consignment in specified Focus Market:

- i. A self attested copy of import bill of entry filed by importer in specified market, or
- ii. Delivery order issued by port authorities, or
- iii. Arrival notice issued by goods carrier, or
- iv. Tracking report from the goods carrier duly certified by them, evidencing arrival of export cargo to destination Focus Market, or
- v. Lorry receipts of transportation of goods from Port into the Focus Market, or
- vi. For Land locked Focus Market, Lorry receipts of transportation of goods from Port to Land locked Focus Market, or
- vii. Any other documents that may satisfactory prove to RA concerned that goods have landed in / reached the Focus Market.

F. Revised ANF 3D for Focus Market Scheme is annexed as Annexure 2 to this Public Notice.**G. In Appendix 37D, the following is added after Sr. No G, Additional Focus Products.**

H	HIGH-TECH PRODUCTS (PARA 3.11 OF FTP), as notified in Appendix 37E.	1.4.2007
----------	--	-----------------

This issues in Public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy.

Annexure 1**ANF 3E****For Focus Product Scheme (FPS) Applications]****(For FTP RE2006 & FTP RE2007)**

1. IEC Number

2. Applicant Details

i. Name
ii. Address

3. RCMC Details

i. RCMC Number	ii. Date of Issue
iii. Issuing Authority	iv. Valid upto
v. Products for which registered	

4. Details of exports made during the licensing year _____ (2006-07/2007-08) (Write the relevant year as per date of export)*
(Please note that exports made during 2006-07 and 2007-08 cannot be clubbed into one application)

Sl No	Shipping Bill No	Shipping Bill Date	Date of Export*	Port of Export	ITC (HS) code	Item Description	Focus Product Code
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

BRC/ FIRC No	Date of Realisation as per BRC/FIRC (or Date of Exports in case of Advance Payment)**	FOB value as mentioned in BRC/ FIRC	Rate of Entitlement	Entitlement (in Rs.)	Late Cut applicable, if any (in Rs.)	Focus Product Entitlement (in Rs.)
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			1.25%	(13) = (11) * (12)		(15) = (13) - (14)

5. Number of Split Certificates required (in multiples of Rs 5 lakhs each):
(Splits Certificates shall not be allowed for Duty Credit scrips issued for exports from Non-EDI ports)

6. Port of Registration (for the purpose of imports)***

Note: No supplementary cut shall be imposed, as multiple applications can be filed.

(* Date of Export shall be as per Para 9.12 of HBP v1. No further claims shall be allowed under the scheme against S/Bs included under SI. No. 4 of ANF 3E, even in case of part realizations.)

(** In case of multiple dates of realization against a shipment, the last date of realization is to be mentioned in this column.)

(*** The port of registration shall be any one of the EDI ports from which the exports have been made. In case of exports from Non EDI port, port of registration shall be the port of export.)

8. Application Submission Details (in case of electronically submitted applications)	9. Application Fee Details
i. ECOM Reference Number	(i) Amount (Rs):
ii. Date of Submission on Server	(ii) Demand Draft / Bank Receipt / Electronic Fund Transfer No
iii. Submitted to which Regional Authority	(iii) Date of Issue
iv. File Number	(iv) Name of the Bank on which drawn
v. Date of Issue	(v) Bank Branch on which drawn

DECLARATION / UNDERTAKING

1. I hereby declare that particulars and statements made in this application are true and correct and nothing has been concealed or held therefrom. I fully understand that any information furnished in application if found incorrect or false will render my firm / company and me liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
2. I hereby certify that none of Proprietor/ Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee of firm / company, as the case may be, is a Proprietor/ Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee in any other firm / company which has come to adverse notice of DGFT. Consequentially, I further declare that under Foreign Trade (Development and Regulation) Act (FT (D&R) Act) 1992, my firm / company have not been debarred in person from undertaking any export import business or activity by way of suspension or cancellation of IEC number. [If so debarred under FT (D&R) Act, details of said order and period for which the same is operational may be provided].
3. I hereby certify that my firm / company has not defaulted from export obligation under any provisions of FTP and has not been placed under the Denied Entity List (DEL). [If under DEL List, kindly furnish details of order, current status etc.]
4. I hereby declare that details of exports of goods of my firm / company are true and correct and in accordance with accounts maintained in my firm / company.
5. I hereby declare that no benefit under Focus Product Scheme (FPS) / High-Tech Products Export Promotion Scheme (HTPEPS), as the case may be, was availed (or applied for) previously against Shipping Bills currently included in this application.
6. I hereby declare that in terms of Para 3.12.6 of FTP, this application does not contain any exports for which benefit under any other promotional scheme under Chapter 3 of FTP has been / will be claimed.
7. I further declare that shipment for which benefit is claimed under this application contains only those export shipments exported through EDI enabled ports, and does not contains any shipment from non-EDI ports.
Or
I further declare that shipment for which benefit is claimed under this application contains only those export shipments exported through a single non-EDI enabled ports; and does not contains any shipment from EDI ports or other non EDI ports.
(Strike out which ever is not relevant, as separate applications for shipments from EDI ports and from shipments from each Non-EDI ports are required to be submitted).
- 7A. I further declare that the application includes export from DTA to SEZ, and bill of exports has been submitted in lieu of Shipping Bill.
(Strike out if not relevant)
8. I hereby declare that in terms of Para 3.12.8 of FTP, this application does not contain any exports in contravention to this provision.
9. I hereby declare that export product for which FPS / HTPEPS benefit is being claimed does not contain any shipment made w.e.f 1.4.2007 from such EOU / EHTP / BTP Units, on which direct tax exemption is / will be availed and further that these exports are not covered under Sr. No. 10 below.
10. I hereby declare that the exports, for which benefit is being claimed under FPS/HTPEPS, does not include any export and / or category covered under Para 3.10.2.2 of FTP for FPS / Para 3.11.4 of FTP for HTPEPS, as the case may be.
11. I hereby declare that the exports, for which benefit is being claimed under FPS / HTPEPS (as the case may be), does not include any shipment exported after the itemized policy contained in the ITC HS was restricted or prohibited.
12. I hereby declare that
 - a) The total benefits under HTPEPS have not crossed Rs 15 Cr limit for exports made during the current licensing year 2007-08. (List of claims filed, file number wise, for all shipments under HTPEPS is submitted, evidencing the total claim made for exports during 2007-08 under HTPEPS)
 - b) I do not have 'nil' exports in the previous licensing year (i.e. 2006-07)
 - c) I opt to claim the benefits @ 1.25% in terms of Para 3.11.2 (a) of FTP.
13. I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.9 of FTP.

Place:	Signature:
Date:	Name:
Documents to be submitted	Designation:
1. Export promotion (EP) copy of Shipping Bill / Bill of Export (including in case of exports through Land Customs)	Official Address:
2. Relevant Original Bank Certificate of Exports and Realisation - Appendix 22A / Foreign Inward Remittance Certificates (FIRC) or offsetting of export proceeds with approval of RBI (Appendix 22D).	Residential Address:
Note: In case of FIRC, a declaration from exporter that remittance is in respect of Shipping Bill(s) No. _____ dtd _____ shall also be furnished.	Telephone:
Note 1: Each individual page of application has to be signed. One Printout of Online application duly signed in provided space. Copy of Updated Profile in ANF 1 only if any changes have taken place and updated, along with Copy of Valid RCMC.	Email Address:
Note 2: In cases where original EP copy of Shipping Bill(s) / Bill of export and/or Bank Realisation Certificates has been submitted under any other scheme of FTP, a self attested photocopy(s) of EP copy of the same be attached, quoting Reference File no. & concerned Regional Authority where original documents have been submitted.	

Annexure 2**ANF 3D****For Focus Market Scheme (FMS) Applications
(For FTP RE2006 & FTP RE2007)**

1. IEC Number

2. Applicant Details
i. Name
ii. Address

3. RCMC Details	
i. RCMC Number	ii. Date of issue
iii. Issuing Authority	iv. Valid upto
v. Products for which registered	

4. Details of exports made during the licensing year (2006-07/2007-08) (Write the relevant year as per date of export)*
(Please note that exports made during 2006-07 and 2007-08 cannot be clubbed into one application)

Sl No	Shipping Bill No	Shipping Bill Date	Date of Export*	Port of Export	ITC (HS) code	Item Description	Focus Market code
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

BRC/ FIRC No	Date of Realisation as per BRC/FIRC (or Date of Exports in case of Advance Payment)**	FOB value as mentioned in BRC/ FIRC	Rate of Entitlement	Entitlement (in Rs.)	Late cut applicable, if any (in Rs.)	Focus Market Entitlement (in Rs.)
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			2.5%	(13) = (11) * (12)		(15) = (13) - (14)

5. Number of Split Certificates required (in multiples of Rs 5 lakhs each):
(Split Certificates shall not be allowed for Duty Credit scrips issued for exports from Non-EDI ports)

6. Port of Registration (for the purpose of imports)***

Note: No supplementary cut shall be imposed, as multiple applications can be filed:

(* Date of Export shall be as per Para 9:12 of HBP v1. No further claims shall be allowed under the scheme against S/Bs included under Sl. No. 4 of ANF 3D, even in case of part realizations.)

(** In case of multiple dates of realization against a shipment, the last date of realization is to be mentioned in this column.)

(*** The port of registration shall be any one of the EDI ports from which the exports have been made. In case of exports from Non EDI port, port of registration shall be the port of export.)

8. Application Submission Details (in case of electronically submitted applications)	9. Application Fee Details
i. ECOM Reference Number	(i) Amount (Rs):
ii. Date of Submission on Server	(ii) Demand Draft / Bank Receipt / Electronic Fund Transfer No
iii. Submitted to which Regional Authority	(iii) Date of Issue
iv. File Number	(iv) Name of the Bank on which drawn
v. Date of Issue	(v) Bank Branch on which drawn

DECLARATION/UNDERTAKING

14. I hereby declare that particulars and statements made in this application are true and correct and nothing has been concealed or held therefrom. I fully understand that any information furnished in application if found incorrect or false will render my firm / company and me liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
15. I hereby certify that none of Proprietor/ Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee of firm / company, as the case may be, is a Proprietor / Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee in any other firm / company which has come to adverse notice of DGFT. Consequentially, I further declare that under Foreign Trade (Development and Regulation) Act (FT (D&R) Act) 1992, my firm / company have not been debarred in person from undertaking any export import business or activity by way of suspension or cancellation of IEC number. [If so debarred under FT (D&R) Act, details of said order and period for which the same is operational may be provided].
16. I hereby certify that my firm / company have not defaulted from export obligation under any provisions of FTP and have not been placed under the Denied Entity List (DEL). [If under DEL List, kindly furnish details of order, current status etc.]
17. I hereby declare that details of exports of goods of my firm / company are true and correct and in accordance with accounts maintained in my firm / company.
18. I hereby declare that no benefit under Focus Market Scheme (FMS) was availed (or applied for) previously against Shipping Bills currently included in this application.
19. I hereby declare that in terms of Para 3.12.6 of FTP, this application does not contain any exports for which benefit under any other promotional scheme under Chapter 3 of FTP has been / will be claimed.
20. I further declare that shipment for which benefit is claimed under this application contains only those export shipments exported through EDI enabled ports, and does not contains any shipment from non-EDI ports.
Or
I further declare that shipment for which benefit is claimed under this application contains only those export shipments exported through a single non-EDI enabled ports; and does not contains any shipment from EDI ports or other non EDI ports.
(Strike out which ever is not relevant, as separate applications for shipments from EDI ports and from shipments from each Non-EDI ports are required to be submitted).
21. I hereby declare that in terms of Para 3.12.8 of FTP, this application does not contain any exports in contravention to this provision.
22. I hereby declare that export product, for which FMS benefit is being claimed, does not contain any shipment made w.e.f 1.4.2007 from such EOU / EHTP / BTP Units, on which direct tax exemption is / will be availed and further that these exports are not covered under Sr. No. 10 below.
23. I hereby declare that the exports, for which benefit is being claimed under FMS, does not include any export and / or category covered under Para 3.9.2.2 of FTP for FMS.
24. I hereby declare that the exports, for which benefit is being claimed under FMS, does not include any shipment exported after the itemized policy contained in the ITC HS was restricted or prohibited.
25. I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.9 of FTP.

Place: _____	Signature: _____
Date: _____	Name: _____
Documents to be submitted	Designation: _____
3. Export promotion (EP) copy of Shipping Bill / Bill of Export (including in case of exports through Land Customs)	Official Address: _____
4. Relevant Original Bank Certificate of Exports and Realisation - Appendix 22A / Foreign Inward Remittance Certificates (FIRC) or offsetting of export proceeds with approval of RBI (Appendix 22D).	Residential Address: _____
5. As a proof of landing of export consignment in specified Focus Market, any one of the documents specified in Para 3.20.3 should suffice.	_____
6. In case of FIRC, a declaration from exporter that remittance is in respect of Shipping Bill(s) No _____ dtd _____ shall also be furnished.	Telephone: _____
Note 1: Each individual page of application has to be signed. One Printout of Online application duly signed in provided space. Copy of Updated Profile in ANF 1only if any changes have taken place and updated, along with Copy of Valid RCMC.	Email Address: _____
Note 1: In cases where original EP copy of Shipping Bill(s) / Bill of export and/or Bank Realisation Certificates has been submitted under any other scheme of FTP, a self attested photocopy(s) of EP copy of the same be attached, quoting Reference File no. & concerned Regional Authority where original documents have been submitted.	